

प्रेस नोट दिनांक 09.02.2021

चोरी की मोटरसाईकिल बरामदगी -

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा चिलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सैफई महोदय के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैफई इटावा के नेतृत्व में दिनांक 08.02.2021 को थाना सैफई जनपद इटावा की पुलिस तलाश वाँछित अपराधी, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में थाना क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक चोरी की मोटर साईकिल से अमरसीपुर गाँव की तरफ से सैफई को आ रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री गनेश गुप्ता मय हमराह पुलिस की मदद से अमरसीपुर बम्बा के पास से अभियुक्त अनुज कठेरिया ऊर्फ कपूरी पुत्र मायाराम निवासी किरथुआ थाना करहल जिला मैनपुरी व अपचारी सचिन यादव पुत्र लालसिंह निवासी नगला वीरे थाना कुरा जिला मैनपुरी को मु0अ0सं0 23/2021 धारा 379 भादवि से सम्बंधित मो0सा0 हीरो होण्डा डीलक्स नं0 UP84H 1888 व एक अन्य चोरी की मो0सा0 स्पेलेण्डर नं0 UP75H 9980 सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 24/2021 धारा 420/411/413 भादवि पंजीकृत करके गिरफ्तार लोगो को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी अभियुक्त / अपचारी

- (1) अनुज कठेरिया ऊर्फ कपूरी पुत्र मायाराम निवासी किरथुआ थाना करहल जिला मैनपुरी
- (2) सचिन यादव पुत्र लालसिंह यादव निवासी नगला वीरे थाना कुरा जिला मैनपुरी (अपचारी)

बरामदगी -

- (1) एक अदद मो0सा0 हीरो होण्डा डीलक्स नं0 UP84H 1888
- (2) एक अदद स्पेलेण्डर मो0सा0 नं0 UP75H 9980

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 23/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सैफई इटावा
2. मु0अ0सं0 24/2021 धारा 420/411/413 भादवि थाना सैफई इटावा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री वीरेन्द्र बहादुर यादव प्रभारी निरीक्षक सैफई इटावा
2. उ0नि0 श्री गनेश गुप्ता थाना सैफई इटावा
3. उ0नि0 श्री रावेधर सिंह थाना सैफई इटावा

4. का0 1262 हरेधर सिंह थाना सैफई इटावा
5. का0 502 राजेश कुमार थाना सैफई इटावा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इटावा।